

प्रेस-विज्ञप्ति**बिलरियागंज****पुलिस मुठभेड में अवैध तमंचा, कारतूस तथा मोटरसाइकिल के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण तथा वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध असलहो की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद आजमगढ़ श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31.12.2020 को थानाध्यक्ष बिलरियागंज श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा वांछित, ईनामिया अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु नसीरपुर बाजार में मौजूद था कि मुखबिर ने बताया कि कुछ लोग तीन मोटरसाइकिल से जगमलपुर मोड़ के आगे सुनशान स्थान पर इक्कठा है। यह लोग रात्रि में पिकअप के जरीये गोवंशीय पशुओं को चोरी छुपे लादकर वध हेतु विहार ले जाते हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष बिलरियागंज मय हमराह के जगमलपुर पहुंचा कि थोड़ी देर बाद जगमलपुर की तरफ से तीन मोटरसाइकिल पर दो-दो व्यक्ति बैठ कर आते हुए दिखाई दिये। मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को पुलिस बल द्वारा रूकने का इशारा किया तो पुलिस से घिरता देख उन्होंने पुलिस बल पर लक्ष्य कर जान मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस बल द्वारा प्रशिक्षित तरिके से अपना बचाव करते हुए दो व्यक्तियों को एक बारगी घेरकर आवश्यक बल प्रयोग कर समय 02.10 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया तथा चार व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहे। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम मो० साजिद पुत्र मो० अबुजैश निवासी अण्डाखोर टिकरिया थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ तथा दूसरे ने अपना नाम मो० यासिन पुत्र कमर अहमद निवासी कामिलगंज थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ बताया। मौके पर तलाशी से अभियुक्तगण के कब्जे से दो अदद तमन्चा 315 बोर, दो अदद जिन्दा कारतूस, 03 अदद खोखा कारतूस 315 बोर तथा एक अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर क्रमशः 1. मु०अ०सं० 218/20 धारा 307/34 भादवि भादवि थाना बिलरियागंज आजमगढ़ 2. मु०अ०सं० 219/20 धारा 3/25/27 आयुद्य अधि० थाना बिलरियागंज आजमगढ़ बनाम मो० साजिद 3. मु०अ०सं० 220/2020 धारा 3/25/27 आयुद्य अधि० थाना बिलरियागंज आजमगढ़ मो० यासिन पंजीकृत कर अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम

1. मो० साजिद पुत्र मो० अबु जैश सा० अण्डाखोर टिकरिया, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
2. मो० यासीन पुत्र कमर अहमद सा० कामिलगंज थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग

1. मु०अ०सं० 218/20 धारा 307/34 भादवि भादवि थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
2. मु०अ०सं० 219/20 धारा 3/25/27 आयुद्य अधि० थाना बिलरियागंज आजमगढ़ बनाम मो० साजिद
3. मु०अ०सं० 220/2020 धारा 3/25/27 आयुद्य अधि० थाना बिलरियागंज आजमगढ़ मो० यासिन

बरामदगी

1. दो अदद अवैध तमन्चा, 02 अदद जिन्दा कारतूस तथा 03 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
2. एक अदद मोटरसाइकिल

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2. उ०नि० ओमप्रकाश यादव मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।